

Modipon Limited

Hapur Road, Modinagar, Ghaziabad -201 204 (UP) Phone (01232) 243471

Dated: 29th June, 2021

To
The BSE Limited
The Listing Department
25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street, Mumbai-400 001

SUB: REGULATION 47 OF SEBI (LISTING OBLIGATIONS & DISCLOSURE REQUIREMENTS)

REGULATIONS, 2015

Ref: - Scrip Code: 503776

Dear Sir/ Ma'm,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of the audited Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2021 published in Financial Express & Jansatta dated June 29, 2021 duly approved in the meeting of the Board of Directors of the Company held on June 28, 2021.

This is for your kind information & records.

Thanking you

Yours truly,

For MODIPON LIMITED

Vineet Kumar Thareja

(Company Secretary & Compliance Officer)

Encl: As above

CIN: L65993UP1965PLC003082 E-mail: modipon@modimangal.in Website: www.modipon.net

(₹ in Lacs

Audited

FINANCIAL EXPRESS

NOTICE OF LOSS OF SHARES OF GlaxoSmithKline Consumer Products Ltd unit of Hindustan Unilever Limited Regd. Off. Unilever House, B D Sawant Mars Chakala, Andheri (East) Mumbai - 400099 Notice is hereby given that the following sha certificates have been reported as lost and th Company intends to issue duplicate certificate in lieu thereof, in due course. Any person who has a valid claim on the said shares should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days hereof. (1). Name of the Shareholder/s PINKY JAIN, Folio No/s P02985 Certificate No(s) 117128, 223381, 395852

395853, Distinctive No(s) 13942732-13942781 26783948-26783997, 43539913-43539962 43539963-43539972, No. of Share 160. (2). Name of the Shareholder/s SATINDER KUMAR JAIN, Folio No(s) S03245, Certificate No(s) 232588, 232589 Distinctive No(s) 27415592-27415641, 27415642-27415691, No. of Share 100. Name(s) of the holder(s) Date: 29/06/2021 PINKY JAIN SATINDER KUMAR JAIN Place: Delhi

DELTA LEASING & FINANCE LIMITED 55 F.I.E. Patparganj, Ind. Area, Delhi-110092 Ph. No.: 011-42420164 CIN: L67120DL1983PLC016990 E-mail: info@deltaleasing.in Website: www.deltaleasing.in NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47

of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015. Notice is hereby given that meeting of the Board of Directors of Delta Leasing & Finance Limited is scheduled to be held on, 30th June Wednesday, 2021 at 4:00 P.M. at the Registered Office of the Company at 55 F.I.E. Patparganj, Industrial Area, Delhi-110092 to consider and approve the Standalone Audited Financial Results of the Company for the Quarter and year ended 31st March, 2021 and to conside any other matter with the permission of Chair. This intimation is also available on the website o BSE Limited (www.bseindia.com) where the Company's shares are listed and on the website of the Company viz (www.deltaleasing.in) For DELTA LEASING & FINANCE LIMITED

DR. FRESH ASSETS LTD Regd. Off.: B-1/E-24, Mohan Cooperative Industrial Estate. Mathura Road, New Delhi-110 044 CIN-L74899DL1990PLC042302 E-mail: drfresh@drfreshassets.com

website: www.drfreshassets.com

Place: Delhi Date: 21.06.2021

Sd/ (Renu Jindal)

Managing Director DIN: 01843439

NOTICE Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 30th June, 2021 inter alia approve and take on record the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2021 Trading window for dealing in securities of the Company is under closure from 1st April, 2021 and will remain closed till the end of 48 hours after the Results are made public. The notice is also available on the Stock Exchange website www.msei.in and company's website www.drfreshassets.com. For DR. FRESH ASSETS LTD Sd/

Date: 22.06.2021 Vijay Prakash Pathak Place : Delhi Whole Time Director DIN-07081958

MAXPLUS LOGISTICS LIMITED

CIN: L65999DL1985PLC022321 Read. Office: 1, Community Centre, East of Kailash, New Delhi-110 065 email: sanjeev.chandra@gmail.com website:www.maxpluslogisticslimited.com **Tel. No.**: 011-49057869 NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with

Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations. 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 30th June, 2021 inter alia approve and take on record the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2021. The Notice is also available on the Stock Exchanges website www.msei.in Company's website www.maxpluslogisticslimited.com. For Maxplus Logistics Limited

Sd/-Place: New Delhi Sanjeev Chandra Date : 22.06.2021 **Director and CEO**

"IMPORTANT" Whilst care is taken prior to acceptance of advertising its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be

copy, it is not possible to verify held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

MODIPON LIMITED

Regd. Office: Hapur Road, Modinagar, Ghaziabad -201 204 (UP) CIN: L65993UP1965PLC003082 Phone: (01232) 243471; E-mail: modipon@modimangal.in Website: www.modipon.net Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter & Twelve Months ended 31th March, 2021

	24 BURESTON	For th	e Quarter end	ded on	nine months ended	Year ended	Year ended
lo.	Particulars	31.03.2021 (Audited)	31.03.2020 (Audited)	31.12.2020 (Unaudited)	31-12-2020 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2020 (Audited)
1	Total income from operations (net)	132.65	0.00	+15	0.56	133.21	0.10
2	Net Profit / (Loss) from ordinary activities before tax and Exceptional items	112.38	(20.14)	(14.17)	(54.19)	58.19	(315.23)
3	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax (before Exceptional items)	112.38	(20.14)	(14.17)	(54.19)	58.19	(315.23)
	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	112.38	210.57	(14.17)	(54.19)	58.19	(84.52)
5	Total comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	112.38	210.57	(14.17)	(54.19)	58.19	(84.52)
3	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs 10/- each)	1157.67	1,157.67	1,157.67	1,157.67	1,157.67	1,157.67
,	Earnings Per Share (before Exceptional items) of Rs 10/- each Basic (Rs): Diluted (Rs):	0.97 0.97	1.82 1.82	(0.12) (0.12)	(0.47) (0.47)	0.50 0.50	(0.73)
3	Earnings Per Share (after exceptional items) of Rs 10/- each	10000000	-1 -2784000	0000000	100000	2000	1000000
	Basic (Rs):	0.97	1.82	(0.12)	(0.47)	0.50	(0.73)
	Diluted (Rs):	0.97	1.82	(0.12)	(0.47)	0.50	(0.73)

of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Yearly Financial Results are available on the Company's Website at www.modipon.in and also be accessed on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com. For & on behalf of Board of Directors

> (Manish Modi) Managing Director DIN 00030036 FRICK INDIA LIMITED

Place: New Delhi

Date: 28-06-2021

CIN: L74899HR1962PLC002618 Registered Office: 21.5 KM, Main Mathura Road, Faridabad, 121003 Telephone No. 01292275691-94 Email: fbd@frickmail.com www.frickweb.com

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 31.03.2021

Dantiaulana	Ť.	Quarter Ended	1	Year	Ended
Paπiculars	31/03/2021 (Audited)	31/12/2020 (Unaudited)	31/03/2020 (Audited)	31/03/2021 (Audited)	31/03/2020 (Audited)
Revenue					
Revenue from Operations	8,365.79	5,661.29	7,099.19	22,759.77	22,200.04
Other Income	268.67	349.16	86.79	994.09	500.87
Total Income (I+II)	8,634.46	6,010.45	7,185.98	23,753.86	22,700.91
Expenses					
Cost of Materials Consumed	5,031.50	3,553.13	4,325.88	13,906.99	14,153.85
Changes in inventories of finished goods, work-in-progress					
and Stock-in-Trade	204.59	71.14	(20.47)	516.13	(191.83)
Employees Benefit Expenses	1,019.44	932.31	999.16	3,676.46	3,814.60
Finance Cost	82.88	53.46	82.07	224.95	250.97
Depreciation & Amortisation Expense	55.53	56.88	69.33	228.38	264.23
Other expenses	1,228.62	609.25	940.34	2,469.36	2,555.04
Total Expenses (IV)	7,622.56	5,276.17	6,396.31	21,022.27	20,846.86
Profit before tax (III-IV)	1,011.90	734.28	789.67	2,731.59	1,854.05
Tax Expenses					
a) Current tax	237.19	184.80	262.12	670.00	530.00
b) Deferred tax	(56.13)	14.04	10.75	(42.46)	(36.84)
c) Income tax for earlier years	25.00	-	(100.02)	25.00	(100.02)
Total taxes (VI)	206.06	198.84	172.85	652.54	393.14
Profit after tax for the period (V-VI)	805.84	535.44	616.82	2,079.05	1,460.91
Other Comprehensive Income (net of taxes)					
(A) (i) Items that will not be Reclassified to Profit or Loss: (ii) Income tax relating to items that will not be	(60.04)	12.94	69.76	(21.22)	51.76
reclassified to Profit or Loss:	15.11	(3.26)	(17.56)	5.34	(13.03)
(B) (i) Items that will be Reclassified to Profit or Loss:	_	_	-	_	_ ` _
reclassified to Profit or Loss:"		_		_	
Total Other Comprehensive Income (VIII)	(44.93)	9.68	52.20	(15.88)	38.73
. , ,	760.91	545.12	669.02	2,063.17	1,499.64
. , ,				· '	
	60.00	60.00	0.00	· '	,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
, , , ,	134.31	89.24	102.80	346.52	243.49
·					
	Revenue from Operations Other Income Total Income (I+II) Expenses Cost of Materials Consumed Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and Stock-in-Trade Employees Benefit Expenses Finance Cost Depreciation & Amortisation Expense Other expenses Total Expenses (IV) Profit before tax (III-IV) Tax Expenses a) Current tax b) Deferred tax c) Income tax for earlier years Total taxes (VI) Profit after tax for the period (V-VI) Other Comprehensive Income (net of taxes) (A) (i) Items that will not be Reclassified to Profit or Loss: (ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to Profit or Loss: (ii) Income tax relating to items that will not be	Revenue Revenue from Operations Other Income Total Income (I+II) Sepanses Cost of Materials Consumed Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and Stock-in-Trade Employees Benefit Expenses Depreciation & Amortisation Expense Total Expenses Other expenses Other expenses Total Expenses (IV) Profit before tax (III-IV) Tax Expenses a) Current tax b) Deferred tax c) Income tax for earlier years Total taxes (VI) Profit after tax for the period (V-VI) Other Comprehensive Income (net of taxes) (ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to Profit or Loss: (iii) Income tax relating to items that will not be reclassified to Profit or Loss: (iii) Income tax relating to items that will not be reclassified to Profit or Loss: (iii) Income tax relating to items that will not be reclassified to Profit or Loss: (iii) Income tax relating to items that will not be reclassified to Profit or Loss: (iii) Income tax relating to items that will not be reclassified to Profit or Loss: (iii) Income tax relating to items that will not be reclassified to Profit or Loss: (iii) Income tax relating to items that will not be reclassified to Profit or Loss: (iii) Income tax relating to items that will not be reclassified to Profit or Loss: (iii) Income tax relating to items that will not be reclassified to Profit or Loss: (iii) Income tax relating to items that will not be reclassified to Profit or Loss: (iii) Income tax relating to items that will not be reclassified to Profit or Loss: (iii) Income tax relating to items that will not be reclassified to Profit or Loss: (iii) Income tax relating to items that will not be reclassified to Profit or Loss: (iii) Income tax relating to items that will not be reclassified to Profit or Loss: (iii) Income tax relating to items that will not be reclassified to Profit or Loss: (iii) Income tax relating to items that will not be reclassified to Profit or Loss: (iii) Income tax relating to items that will not be reclassified to Profit or Loss: (iii) Income tax relating t	National State Company Company	Revenue Revenue Favenue Revenue Revenue Revenue Favenue Revenue Reve	Revenue Reve

Notes:

The above results were reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors at its respective meeting held on 28.06.2021 and a limited review of the same have been carried out by the statutory auditors of the company.

- The Company is primarily engaged in the business of manufacture, supply and execution of Industrial Refrigeration and Air conditioning systems. As the basic nature of these activities is governed by the same set of risks and returns, therefore, has only one reportable segment in according to IND AS 108 "Operating Segments".
- The Board of Directors have recommended a dividend of 25% viz. Rs. 2.50 per share (Previous Year 25%).
- The Management has evaluated to the extent possible likely impact from Covid-19 on the carrying value of its Assets & Liabilities. Based on current indications, the Company expects to recover the carrying amount of its Assets and does not foresee any incremental risk to service financial obligations. Considering the Company's quality product, long-standing relationships & goodwill with its customers, suppliers & other stakeholders, the business operation, cash flows, future revenue, assets and liabilities are expected to sustain going forward. The impact of any future events & developments, if any, emerging out of the Pandemic occurring after the approval of financial results will be recognized prospectively.
- The figures for the previous periods/year have been regrouped / rearranged, wherever necessary. The figures for the quarter ended 31st March 2021 are the balancing figures between the audited figures in respect of full financial year and reviewed year-to-date figures upto the third quarter of the financial year.

For and on behalf of Board Frick India Limited

Jasmohan Singh **Managing Director** DIN - 00383412

IDFC First Bank Limited

(erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) CIN: L65110TN2014PLC097792 Registered Office: - KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai- 600031, Tel: +91 44 4564 4000 | Fax: +91 44 4564 4022

Date: 28.06.2021

Place: Faridabad

IDFC FIRST Bank

Notice under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial

Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

The following borrowers and co-borrowers availed the below mentioned secured loans from IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) The loans of the below-mentioned borrowers and co-borrowers have been secured by the mortgage of their respective properties. As they have failed to adhere to the terms and conditions of the respective loan agreements and had become irregular, their loan were classified as NPA as per the RBI guidelines. Amounts due by them to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) are mentioned as per respective notices issued more particularly described in the following table and further interest on the said amounts shall also be applicable and the same will be charged as per contractual rate with effect from their respective dates.

Sr No.	Loan Account No.	Type of Loan	Name of borrowers and co-borrowers	Section 13 (2) Notice Date	Outstanding amount as per Section 13 (2) Notice	Property Address
1	26692456	Home Loan	1. ASHISH SHARMA 2. USHA SHARMA	12.06.2021	12,53,159.13/-	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF RESIDENTIAL PROJECT KNOWN AS "FORT VIEW RESIDENCY" RESIDENTIAL GROUP HOUSING SCHEME BAERING FLAT NO. 920 ON THE 9TH FLOOR, IN TOWER C-2, CONSTRUCTED ON KHASRA NO. 2031/395, 2032/396, 399 TO 408 & 401/2003 SITUATED AT VILLAGE: BAHALA, KASROLI ROAD, THRAMGARH & DIST- ALWAR, RAJASTHAN ADMEASURING 15627.83 SQ. MTRS., & 690 SQ. FT., BUILT UP AREA, AND BOUNDED AS: WEST: ROAD 60' WIDE EAST: OTHER LAND - AGRICULTURE
2	26691668	Home Loan	1. DHANI RAM 2. PREM	12.06.2021	13,26,828.08/-	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF RESIDENTIAL PROJECT KNOWN AS "FORT VIEW RESIDENCY", BEARING FLAT NO 901, ON THE 9TH FLOOR, IN TOWER NO. 'C-1', UNDER THE RESIDENTIAL GROUP HOUSING SCHEME, CONSTRUCTED ON KHASRA NO. 2031/395, 2032/396, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 & 408 & 401/2003, SITUATED AT VILL- BAHALA, TH- RAMGARH & DISTT- ALWAR, RAJASTHAN, ADMEASURING 15627.83 SQ. MTRS., AND BOUNDED AS: WEST: ROAD 60' WIDE EAST: OTHER LAND-AGRICULTURE NORTH: ROAD SOUTH: OTHER LAND-AGRICULTURE
3	26691496	Home Loan	1. HARIRAM MEENA 2. LALTA MEENA	15.06.2021	8,85,224.33/-	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF RESIDENTIAL PROJECT KNOWN AS "FORT VIEW RESIDENCY", BEARING FLAT NO 221, ON THE 2ND FLOOR, IN TOWER NO. 'D', UNDER THE RESIDENTIAL GROUP HOUSING SCHEME, CONSTRUCTED ON KHASRA NO. 2031/395, 2032/396, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 & 408 & 401/2003, SITUATED AT VILL- BAHALA, TH- RAMGARH & DISTT- ALWAR, RAJASTHAN, ADMEASURING 15627.83 SQ. MTRS., AND BOUNDED AS: WEST: ROAD 60' WIDE EAST: OTHER LAND-AGRICULTURE NORTH: ROAD SOUTH: OTHER LAND-AGRICULTURE
4	26692625	Home Loan	1.MAHENDER SINGH 2. UAMA RANI	12.06.2021	247499.30/-	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PLOT NO. UD-01 SITUATED ON MAIN ROAD ON NATIONAL HIGHWAY-8, BHEROR DIST. ALWAR, RAJASTHAN, ADMEASURING 115385.63 SQ.MT. AND, BOUNDED AS: EAST: NATIONAL HIGHWAY 8 WEST: AGRICULTURAL LAND NORTH: INDUSTRIAL AREA BAHRORSOUTH: AGRICULTURE LAND
5	26692174	Home Loan	1. TEJ SINGH 2. GEETA DEVI	12,06.2021	5,28,421.18/-	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF IMMOVABLE PLOT PATTA NO. 10, VILLAGE-DONGRA, KISHANGARH BAS, DISTT- ALWAR, RAJASTHAN – 301405, ADMEASURING 158,88 SQ. YARDS EQUIVALENT TO 1430 SQ.FT., AND BOUNDED AS: EAST:PROPERTY OF MOHAN LAL NORTH: COMMON 5' WIDE GALI & PROP OF KAILASH GYARSA SOUTH: COMMON ROAD WEST: COMMON ROAD

You are hereby called upon to pay the amounts to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) as per the details shown in the above table with contracted rate of interest thereupon from their respective dates and other costs, charges etc. within 60 days from the date of this publication, failing which the undersigned shall be constrained to initiate proceedings, under Section 13 (4) and section 14 of the SARFAESI Act, against the mortgaged properties mentioned hereinabove to realize the amount due to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited). Further you are prohibited under Section 13 (13) of the said Act from transferring the said secured assets either by way of sale/lease or otherwise.

Date: 29.06.2021 Place : Alwar

Authorized Officer IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited)

PAWANSUT HOLDINGS LIMITED CIN: L65929DL1984PLC019506 Registered Office: 415, Usha Kiran Building Commercial Complex, Azadpur Delhi-110033 Email Id: pawansutholdingsitd@gmail.com Website: www. pawansutholdings.com Ph no: 011-27676399 NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure lequirements) Regulations, 2015, Notice be and is nereby given that the meeting of the Board of Directors of M/s Pawansut Holdings Limited will be neld on Wednesday, 30th June, 2021 at 03:00 P.M at the registered office of the Company consider and approve the Audited Financial Results along with Auditor's Report of the Company for the Quarter/ Year ended 31st March, 2021 and to consider any other matter with the permission of This information is also available on the website of the Company at www.pawansutholdings.com and

the shares of the Company are listed i.e www.bseindia.com.
For Pawansut Holdings Limited
Sd/ (Ram Kishore Bansal)

on the website of the Stock Exchange where

Managing Director DIN: 05195812 Place: Delhi Date: 21.06.2021

FOCUS INDUSTRIAL RESOURCES LIMITED Regd. Off.: 104, Mukand House Commercial. CIN: L15319DL1985PLC021348 Phone: 011-27673522, 011-47039000 Fax No: 011-27676399 | Email: info@focuslimited.in. Website: www.focuslimited.in NOTICE

Notice be and is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Require Regulation, 2015 that the meeting of the Board of Directors of M/s Focus Industrial Resources Limited will be held on Wednesday, June 30, ,at 5:00 P.M. at the registered office of the Company inter alia, to consider and approve the Audited Financial Results for the guarter and financial year ended March 31, 2021 and to consider any other matter with the permission of Chair. This intimation is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) where the Company's shares are listed and on the website of the Companyviz.(www.focuslimited.in)

(Mamta Jindal) Managing Director (DIN-00085096)

For Focus Industrial Resources Limited

Date: 21.06.2021

the Fourth Quarter & Year Ended March 31, 2021 (In Lakhs)

B J DUPLEX BOARDS LIMITED

CIN: L21090DL1995PLC066281 Regd. Office: H. NO. 83, T/F CHAWRI BAZAR, Delhi -110006 Email Id: admin@anandpulp.com; Website: www.bjduplexboard.com Extract of Audited Standalone Financial Results for

HITTONIA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	Quarte	Ended	Year Ended
Particulars	tection and an extra contract with	31.03.2020	Secretaria de la constitución de
		(Audited)	(Audited)
Total Income from Operations	0.02	7.11	0.07
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,	(0.05)	6.08	(2.92)
Exceptional and/or Extraordinary items)			2-0001010
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after	(0.05)	6.08	(2.92)
Exceptional and/or Extraordinary items)	800000	0638650	10000000
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after	(0.05)	6.08	(2.92)
Exceptional and/or Extraordinary items)	507 (2)		33 37
Total Comprehensive Income for the period	(0.05)	6.08	(2.92)
[Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and			
Other Comprehensive Income (after tax)]			
Paid up Equity Share Capital (of Rs. 10/- each)			37.66
Other Equity		194	(109.37)
Earnings Per Equity Share (of Rs. 10/- each)			
(for continuing and diascontinued operations)-			
Basic:	0.00	0.12	(0.06)
Diluted:	0.00	0.12	(0.06)
Notes:			

. The above is an extract of the detailed format of the audited financial Results for the fourth quarter and year ended March 31, 2021 filed with the BSE under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results ended March 31, 2021 is available on

the BSE website (www.bseindia.com) and Company's website (www.bj duplex boards.com). The above audited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by

the Board of Directors in its meeting held on 28th June, 2021. The Company is not able to arrange balance confirmation from debtors and creditors hence balances of debtor and creditor are taken subject to confirmations.

For BJ DUPLEX BOARDS LIMITED SATYA BHUSHAN JAIN

Date: 28" June, 2021 Place: New Delhi

(Rs. in Lakhs)

WHOLE TIME DIRECTOR

KOTIA ENTERPRISES LIMITED Regd. Off.: 905, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi-110001

CIN: L74110DL1980PLC010678 Tel:- 91-11 -40045955 E mail: compliance@kotiaenterprises.com, Website: www.kotiaenterprises.com AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON MARCH 31, 2021 (Rs. In Lakhs) For Quarter For Quarter

		For Quarter ended	For Quarter ended	year	ended
SI.	Particulars	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
110.		Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total income from operations (net)	42.28	59.45	168.14	4313.06
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	19.26	14.43	37.98	132.28
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	19.26	14.43	37.98	132.28
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	14.38	10.39	28.36	97.61
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	15.63	1.35	28.36	111.26
6	Equity Share Capital	702.05	702.05	702.05	702.05
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	52	9		10
8	Earnings Per Share (after extraordinary items) (of ₹ 10/- each)				
	Basic:	0.20	0.15	0.40	1.39
	Diluted :	0.20	0.15	0.40	1.39

Notes:

- The above Audited financial results for the quarter and year ended 31st March, 2021 has been reviewed by the Audit Committee and then approved by the Board of Directors at their meeting held on 28th June, 2021
- The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the guarter and year ended 31st march, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter and year ended are available on the website of BSE at
- Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit & Loss in accordance
- The outbreak of Covid-19 pandemic is causing significant disturbance and slowdown of economic activities globally. The management has considered the possible effects that may result from the pandemic on the recoverability / carrying value of the assets. Based on the current indicators of future economic conditions, the management expects to recover the carrying amount of the assets, however the management will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions. Given the uncertainties, the final impact on Company's assets in future may differ from that estimated as at the date of approval of these financial results.

Place: New Delhi Date: June 28, 2021

Ayush Jindal (Company Secretary & Compliance officer)

For Kotia Enterprises Limited

OSCAR GLOBAL LIMITED CIN NO.L51909DL1990PLC041701

Regd. Office: 1/22, SECOND FLOOR ASIF ALI ROAD NEW DELHI-110002. TEL:9810337978,E-mail:oscar@oscar-global.com, Website: www.oscar-global.net Audited Financial Results for the quarter and year ended 31" March, 2021

SI. No.	Particulars	Quarter Ended	Current Year Ended	Corresponding 3 months ended in the previous year
		31.03.2021 Audited	31.03.2021 Audited	31.03.2020 Audited
1.	Total Income from Operations	0.00	5.28	0.00
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(39.20)	(65.69)	(8.83)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(39.20)	(65.69)	(8.83)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(39.20)	(65.69)	(8.83)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(39.20)	(65.69)	(8.83)
6.	Equity Share Capital	329.18	329.18	329.18

Place: Noida

Date: 28.06.2021

Reserves (excluding

Revaluation Reserve)

Balance Sheet of

the previous year

Earnings Per Share

(of Rs.10/- each)

1. Rasic:

Diluted:

(for continuing and

discontinued operations)-

as shown in the Audited

 The said financial results for the year ended 31 March, 2021 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 28th

(1.19)

The above is an extract of the detailed format of the standalone financial results for Quarter and Year ended 31st March, 2021, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and other Disclosures Requirements Regulations ,2015. The full format of the same are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com, www.nseindia.com) and on the Company's website (www.oscarglobal.net)

(KARAN KANIKA VERMA)

Chairman & Managing Director Date:28th June, 2021 DIN:00034343 Place Mumbai

OSCAR GLOBAL LIMITED

0.27

कॉनकॉर CONCOR

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. (भारत सरकार का उपक्रम) (A govt. of India Undertaking)

TENDER NOTICE (E-Tendering Mode Only) Open tender in Two Bid system is invited for "Services pertaining to Substations and Electrical installations at ICD/DADRI, Uttar Pradesh for 24 months" only through e-tendering mode. The bid document can only be downloaded after paying Rs.1000/- through online from the website www.tenderwizard.com/CCII

CON/ICD/DER/T/AMC/ELECTRICAL/2021 Rs.1.12.85.195/- (Inclusive of GST) stimated Cost Period of the contract 24 Months (As per clause 6 of Section-II) Earnest Money Deposit Earnest Money/Bid Security Declaration as per Annexure-VIII Cost of Document* Rs.1,000/- inclusive of all taxes and duties through e-payment Tender Processing Fee* Rs.5310/- (Inclusive of GST) through e-payment which is Non-refundable Date of Sale (On Line) From 29.06.2021 at 15:30 Hrs. to 19.07.2021 up to 16:00 Hrs. Date & Time of submission | 20.07.2021 up to 15:00 Hrs. (E-Tendering Mode Only) Date & Time of Opening 22.07.2021 at 15:30 Hrs.

Through e-Payment CONCOR reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reasons thereof. For complete details logon to www.tenderwizard.com/CCIL Group General Manager/Technical (Area-1)

JAGSONPAL FINANCE & LEASING LTD.

CIN: L65929DL1991PLC043182 Regd. Office: D-28, First Floor, Greater Kailash Enclave - I, New Delhi - 110 048. Tel : 011-49025758, Fax : 011-41633812, Web : www.jagsonpal.co.in, Email: jagsonpalfnance@gmail.com EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31"MARCH, 2021

Quarter ended Year ended PARTICULARS 31.03.2021 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020 fotal income from operation (net) (12.41)(64.84)12.11 (55.07) (66.90)1.29 (65.67)Net Profit/(Loss) for the period before tax and (14.49)exception items Net Profit/(Loss) for the period after tax (14.49)(66.90)1.29 (65.67)(before exception items) Net Profit / (Loss) for the period after tax, exceptional items (14.49)(66.90)1.29 (65.67)Total Comprehensive Income for the period 1.29 (65.67)(14.49)(66.90)[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital 550.04 550.04 550.04 550.04 (478.09)(478.90)Reserves excluding revaluation reserves (i.e Other Equity) Earning Per Share (face value ₹ 10/- each) Basic & Diluted 0.02 (1.19) (1.22)

 The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulation 2015. The Full format of the Financial Results for the Quarter and year ended on 31.03.2021 are available on the Stock Exchange i.e. bseindia.com and on the company's website www.jagsonpal.co.in.

The figures are regruouped/rearranged whereever necessary. Kanwarpal Singh Kochhar Place: New Delhi Chairman & Managing Director Date : June 28, 2021 DIN: 00529230

SHAHDARA BRANCH के आर इंकिय BOI G.T. Road, Shahdara, Delhi-110032

POSSESSION NOTICE (Under Section 13(4) of Securitization Act, 2002 read with Rule 8 of Security

Interest (Enforcement) Rules, 2002) Whereas the undersigned being the authorized officer of BANK OF INDIA under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security

Interest (Second) Act, 2002 (Ord. 3 of 2002) and in exercise of power conferred under section 13(12) read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 01/04/2021 calling upon Ms Prem Lata, Mr Shyam Sunder and Mr. Ankit Panchal to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 26,43,237.30 (Rs. Twenty Six Lakh Forty Three Thousand Two Hundred Thirty Seven and Paise Thirty) as on 31/03/2021 with further interest, expenses and other charges etc. thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers /Guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the

nim/her under Sec. 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on this 24th day of JUNE day of the year 2021. The borrower /Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the Property and any dealing with the Property will be subject to the charge of the Bank of India, SHAHDARA Branch for an amount Rs. 26.43,237,30 (Rs. Twenty Six

borrower /Guarantor and the public in general that the undersigned has taken physical

possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on

Lakh Forty Three Thousand Two Hundred Thirty Seven and Paise Thirty) as on 31/03/2021 with further interest, expenses and other charges etc. thereon. Description of the Immovable Property

EQM of property bearing No- 1/3377-A, Gali No. 3, Khasara No. 572 with Terrace right IInd & IIIrd Floor, Ram Nagar, Shahdara, Delhi-110032, Property stands in

the name of Ms Prem Lata Date: 24-06-2021, Place: New Delhi Authorised Officer, Bank of India

BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR NORTHERN REGION

In the matter of sub-section (4) of section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of JBM CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED Registered office at 601, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place,

New Delhi- 110019 (CIN: U74140DL2011PTC227157)

.....Petitioner NOTICE

Notice is hereby given to General Public that the Company proposes to make the application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act 2013, seeking confirmation of alteration of Memorandum of Association of the Company in terms of Special Resolution passed at Extra Ordinary General Meeting held on Saturday, 26" June of 2021 to

Capital Territory of Delhi" to "State of Haryana". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change, may deliver either on MCA portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be deliver or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and ground of opposition to the Regional Director at the Address B-2 Wing, 2rd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi -110003, within 14 Days of date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned

enable the Company to change its Registered Office from "National

Address of Registered Office: 601, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi- 110019 For and on behalf of

JBM Corporate Services Private Limited (Vinay Maheshwari)

Place: Delhi Director Date: 26.06.2021 DIN: 01277826

EBIXCASH

EBIXCASH WORLD MONEY INDIA LIMITED CIN: L65990MH1985PLC037697 Regd. Office: 8th Floor, Manek Plaza, Kalina CST Road, Vidya Nagri Marg, Kalina, Santacruz (East), Mumbai 400 098.

Tel: +91-22-62881500 | Email: corp.relations@ebixcash.com, Website: www.indiaforexonline.com Members of EbixCash World Money India Limited (the 'Company') are hereby

informed that pursuant to Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended read with the General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13" April, 2020, 22/2020 dated 15th June 2020, 33/2020 dated 28th September 2020 and 39/2020 dated 31th December, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars'), or re-enactment thereof for the time being in force), the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and such other applicable laws and regulations, the Company has on 28th June, 2021 Completed the dispatch of Postal Ballot Notice to the members of the Company whose name(s) appear on the Register of Members/ List of Beneficial Owners as on Friday 18th June, 2021 through electronic mail to the Members whose email ids are registered in the records of Depository Participants/ Company's Registrar & Transfer Agent. The Company seeks approval for the following Resolution through Postal

Ballot by voting via remote "evoting". Sr. No. Description of Resolution

Item 1 To consider and approve change in the name of the Company The Postal Ballot Notice has been communicated to the Stock Exchange (NSE & BSE) and is also placed on the website of the Company.

voting process in accordance with the law and in a fair and transparent In view of the aforesaid MCA circulars, the Company seeks approval for the Resolution as contained in the Postal Ballot Notice by voting through electronic means (evoting) only. The Company has engaged the services of NSDL for facilitating e-voting to enable the Members to cast their votes

The Company has appointed Mr. Martinho Ferrao, FCS No. 6221, CP No. 5676 Practising Company Secretary, as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot

electronically. Members are requested to note that e-voting commences on Wednesday, 30th June, 2021 at 0900 hours IST and ends on Thursday, 29th July, 2021 at 1700 hours IST. The detailed instructions regarding in case of any queries, you may reach to:

 NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or

contact at 022-23058738 or 022-23058542-43 Refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting

simultaneously.

user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30. Members requiring any clarification on e-voting may also contact Ms. Purnima Nijhawan, Company Secretary at corp.relations@ebixcash.com. The members whose shares are in physical form and whose email ids are not

registered with Registrar & Share Transfer Agent may update the same as mentioned in the Postal Ballot notice. The result of voting by postal ballot will be declared on or before Saturday, 31st July, 2021 and will be available at the website of the Company i.e.

www.indiaforexonline.com and will be communicated to the Stock Exchange For EbixCash World Money India Limited (Erstwhile Weizmann Forex Limited),

Purnima Nijhawan Company Secretary & Compliance officer

financialexp.er

for and on behalf of the Board of Director

(2.00)

New Delhi

DIN: 00106272

ऑस्कर ग्लोबल लिमिटेड

CIN: L51909DL1990PLC041701,

पंजीकृत. कार्यालय : 1/22, दूसरा तल, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 टेली: 9810337978, ईमेल: oscar@oscar-global.com, वेबसाइट: www.oscar-global.net 31 मार्च. 2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणाम

	31 नाय, 2021 का समाप्त तिमाहा		-	_
क्र.	विवरण	31.03.2021 को		गत वर्ष
∥ सं.		समाप्त तिमाही	को समाप्त	31.03.2020 को
		अंकेक्षित	चालू वर्ष	समाप्त संगत 3
			अंकेक्षित	माह
				अंकेक्षित
	प्रचालनों से कुल आय	0.00	5.28	0.00
2	अवधि हेतु निबल लाभ/हानि (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(39.20)	(65.69)	(8.83)
3	कर पूर्व अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि)	(39.20)	(65.69)	(8.83)
	(अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	(39.20)	(63.69)	(6.63)
4	कर पश्चात अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि)	(39.20)	(65.69)	(8.83)
	(अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के		(, , , ,	()
	पश्चात)			
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु	(39.20)	(65.69)	(8.83)
	लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य			
	व्यापक आय (कर पश्चात) सहित]			
6	इक्विटी शेयर पूँजी	329.18	329.18	329.18
7	आरक्षितियाँ (गत वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन	-	-	-
	पत्र में प्रदर्शित के अनुसार पुनर्मूल्यांकन			
	आरिक्षतियों को छोड़कर)			
8	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक के) (सतत	(1-19)	(2.00)	0.27
	तथा असतत प्रचालनों हेतु)			
	(अ) बेसिक			
	(ब) डाइल्यूटेड			
ستجا	nh .			

1. 31 मार्च, 2021 को समाप्त उपरोक्त वित्तीय परिणामों, जिसकी ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई, को 28 जून, 2021 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों के संपूर्ण प्रारूप का सार है। इन वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट (www.bseindia.com, www.nseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.oscar-global.net) पर उपलब्ध हैं।

> निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से ऑस्कर ग्लोबल लिमिटेड

स्थानः नोएडा तिथि: 28.06.2021

(करण कणिका वर्मा) अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक DIN:0034343

कोटिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड

पंजी. कार्या.: 905, न्यू दिल्ली हाउस, 27, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001 CIN: L74110DL1980PLC010678 फोन: 91-11-40045955 ई मेलः compliance@kotiaenterprises.com, वेक्साइटः www.kotiaenterprises.com 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणाम

豖.	विवरण	समाप्त तिमाही हेतु	समाप्त तिमाही हेतु	समाप	त वर्ष
₹.	Iddia	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
0000		अंकेंदित	अंकेदित	अंकेबित	अंकेशित
1%	प्रवालन से कुल आय (शुद्ध)	42.28	59.45	168.14	4313.06
2	अवधि के लिए शुद्ध लाम/(डानि) (कर, अपवादात्मक और/व असाधारण मदाँ से पूर्व)	19.26	14.43	37.98	132.28
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/व असाधारण मदों के बाद)	19.26	14.43	37.98	132.28
4	कर के बाद अविध के लिए शुद्ध लाभ/(डानि) (अपवादात्मक और/व असाधारण मदों के बाद)	14.38	10.39	28.36	97.61
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाम/(हानि) (कर) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल]	15.63	1.35	28.36	111.26
6	इक्विटी शेयर पूंजी	702.05	702.05	702.05	702.05
7	पिछले वर्ष की अंकेंद्रित बैलेंस शीट में दिखाए अनुसार रिजर्व (पुनर्मुल्यांकन रिजर्क्स को छोडकर)		8		
8	प्रति शेयर आय (असाधारण मदों के बाद) (प्रत्येक ₹ 10 / –) बेसिक : डायल्यूटिड:	0.20 0.20	0.15 0.15	0.40 0.40	1.39 1,39

1 28 जुन, 2021 को आयोजित बैठक में 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए उपरोक्त अंकेक्षित विलीय परिणामों की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई है और फिर निदेशक गंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दर्ज की गई ऊपरोक्त 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का उद्धरण है। समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण विवरण बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर

अपवादात्मक और/व असाधारण मदें, Ind-AS नियम के अनुसार लाभ और हानि के विवरण में समायोजित है। कोविड -19 महामारी का प्रकोप वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण गडबढी और

मंदी का कारण बन रहा है। प्रबंधन ने संभावित प्रमावों पर विचार किया है जो संपत्ति की वसुली / वहन मूल्य पर महामारी से उत्पन्न हो सकतें हैं। भविष्य की आर्थिक परिरिधतियों के वर्तमान संकेतकों के आधार पर, प्रबंधन को जम्मीद है कि परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसली की जाएगी, हालांकि प्रबंधन मविष्य की आर्थिक परिस्थितियों के लिए किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगा। अनिश्चितताओं को देखते हुए, मविष्य में कंपनी की परिसंपत्तियाँ पर अंतिम प्रभाव इन वित्तीय परिणामाँ के अनुमोदन की तारीख से अनुमानित रूप

कते कोटिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली

आयुष जिंदत

से अलग हो सकता है।

(कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी) तिथिः 28 जून, 2021

CENLUB INDUSTRIES LIMITED

Plot No-233-234, Sector-58, Ballabgarh, Faridabad-121004, (Haryana) Ph.: 91 -8826794470-73 Fax: 91 (129) 2307263 Website: http://www.cenlub.in Corporate Identity Number: L67120HR1992 PLC035087 Email: investors@cenlub.in

Statement of Audited Financial Results for the guarter and Year ended 31 March 2021 (Rs. In Lakhs Year Ended Quarter Ended **Particulars** 31-Mar-21 31-Mar-20 31-Mar-21 31-Mar-20 (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) 1.386.77 1,446,48 4.233.01 4,020.01 Total income from operations (net) Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, 197.08 576.43 303.05 Execeptional and/or Extraordinary Items) 275.96 Net Profit / (Loss) for the period before Tax 576.43 406.87 275.96 197.08 (after Execeptional and/ or Extraordinary Items) Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after 174.12 149.78 401.27 276.36 Execeptional and/ or Extraordinary Items) Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit / (Loss) for the period (after 182.47 411.93 150.78 262.98 Tax) and Other Comprehensive Income (after tax) 466.29 466.29 466.29 466.29 Equity Share Capital (in Qty) Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of 2,476.87 2,888.80 previous year) Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs.10/- each)

Diluted: Notes:

The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and and subsequently approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 28th June, 2021.

3.74

3.74

1.93

1.93

8.61

8.61

5.93

5.93

- The Board of Directors of the company has considered to skip the dividend for the year.
- Smt. Madhu Mittal (DIN:00006418) has been Appointed as Chairman and Managing Director & CEO of the Company (Cenlub Industries Limited) with effect from 1st July 2021 for a period of three consecutive years i.e. till 30th June, 2024, subject to the approval of Shareholders of the Company.
- Shri V.K.Gupta (DIN:00006461) has been Re-Appointed as Whole Time Director & CFO & Nodal Officer of the Company (Cenlub Industries Limited) with effect from 1st August 2021 for a period of one year i.e. till 31st July, 2022, subject to the approval of Shareholders of the Company.
- The Financial results of the company for the quarter/year ended March 31,2021 are also available on the Company's website (www.cenlub.in) and on the website of BSE (www.bseindia.com)

FOR CENLUB INDUSTRIES LIMITED

VIRENDRA KUMAR GUPTA Place: Faridabad EXECUTIVE DIRECTOR Dated: June 28, 2021 DIN: 00006461

तेजपाल मामले की लंबित याचिका पर सुनवाई पूरी

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 28 जून।

सप्रीम कोर्ट ने तहलका पत्रिका के संस्थापक तरुण तेजपाल से जुड़े मामले में सुनवाई के लिए समय-सीमा बढ़ाने की याचिका को सोमवार को बंद

बंद प्रचालनों के लिए) बेसिक व डायल्यटिड (रू में)

कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि गोवा की निचली अदालत इस मामले में उन्हें बरी करने का आदेश देकर सुनवाई पूरी कर चुकी है।

गोवा के मापुसा की अदालत ने 21 मई को तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तेजपाल को यौन उत्पीडन के मामले में बरी कर दिया था।

kuhjohl

ओरोसिल स्मिथ्स इंडिया लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः फ्लैट नं0. 629, हेमक्ंत चेम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, भारत कॉपोरेट कार्यालवः ए--८०, सेक्टर--2, नोएडा (वू.पी.) 201301, भारत कोनः +91 120 4125476 ईमेलः info@orosil.com, वेबसाइटः www.orosil.com, CIN: L74110DL1994PLC059341 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए

अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

			(STORE IN	लाखा म प्रा	त शयर डटा	का भारकर)
	25.000		समाप्त तिमाई	ri .	समाप	त वर्ष
那 . स .	विवरण	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
VI.		(अंकेक्षित)	(अनंकेसित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेकित)
1	प्रचालन से कुल आय (शुद्ध)	16.22	27.17	12.68	49.93	167.87
2	अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (कर, अपवादात्मक तथा/व असाधारण मदों से पूर्व)	(15.08)	(6.24)	(8.26)	(35.17)	(26.24)
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/व असाधारण मदों के बाद)	(20.34)	(6.24)	(8.26)	(40.43)	(26.24)
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाग/(हानि) (अपवादात्मक और/व असाधारण मदों के बाद)	(20.34)	(6.24)	(8.26)	(40.43)	(26.24)
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल	(15.51)	(3.31)	(9.19)	(35.37)	(31.65)
6	इविवटी शेयर पूंजी	413.16	413.16	413.16	413.16	413.16
7	अन्य इक्विटी				(265.27)	(229.91)
я	पति शेयर आय (अंकित मन्य पति क. 1 /-) (चान और	(0.04)	(0.01)	(0.02)	(0.09)	(0.06)

त्थानः नोएडा

Place: New Delhi

Date: 28.06.2021

विधिः 28.08.2021

यह विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (संशोधित) के अनुसार तैयार किया गया है, कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 133 के तहत और अन्य मान्यता प्राप्त लेखांकन प्रथाओं और नीतियों को संभव सीमा तक निर्धारित है।

(0.04)

(0.01)

(0.02)

(0.10)

28 जून, 2021 को आयोजित बैठक में उपरोक्त अंकेक्षित वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमेंटी द्वारा समीक्षा तथा निदेशक मंडल बैठक द्वारा स्वीकृत किए गए।

कंपनी के साविधिक लेखा परीक्षकों ने परिणाम सेबी (विनियमन सूची और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए उपरोक्त परिणामों की सीमित समीक्षा की है। लेखापरीक्षक द्वारा एक असंशोधित राय जारी की गई है और उपरोक्त वित्तीय परिणामों के साथ स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल किया है।

बंकि कंपनी एकल खंड में काम करती है. खंड वार रिपोर्टिंग Ind AS 108 के अनुसार लाग नहीं है। वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.crosil.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

पिछली वर्ष / तिमाही के आकडों को तिमाही / वर्ष के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहां भी आवश्यक हुआ पन:समृहित / पन:वर्गीकृत नोवल कोरोनावायरस (कोविड-19), एक वैध्विक महामारी, ने भारत सहित पूरे विश्व की सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को बूरी

तरह प्रभावित किया है और इसके परिणामस्वरूप, कंपनी के प्रचालन और परिणाम प्रभावित हुए हैं। 31.03.2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष के दौरान निवेशकों की कोई शिकायत लंबित नहीं थे।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान श्री बी. के नरूला, कंपनी के प्रबंध निदेशक ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने 50% पारिक्षमिक को छोड दिया।

> निदेशक मंडल के आदेश से कृते ओरोसिल स्मिथ्स इंडिया लिमिटेड हस्ता./-बी. के नरूला (प्रबंध निदेशक)

> > DIN: 00003629

तिथि: 29/06/2021, स्थान : नोएडा

ATLANTIC COMMERCIAL COMPANY LIMITED

Regd. Office: Unit No 2053, 2nd Floor, Plaza-II, Central Square, 20, Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Delhi- 110006 CIN: L51909DL1985PLC020372, Ph: 011-41539140

E-mail ID: limitedatlantic@gmail.com, Website: www.atlantic-commercial.com **EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS** FOR THE FOURTH QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

(₹ in Lakh, except per share detail Quarter Ended Year Ended 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 **Particulars** SI. 31.03.2021 31.03.2020 Audited Audited Unaudited Audited Audited 4.00 4.00 5.00 5.00 Total income from operations Net Profit/(Loss) for the year (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 3.28 (0.32)4.38 0.66 1.62 Net Profit/(Loss) for the year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 3.28 4.38 0.66 1.62 (0.32)Net Profit/(Loss) for the year after tax (after 1.18 Exceptional and/or Extraordinary items) 3.13 (0.32)3.93 0.49 Total Comprehensive Income for the year [Comprising Profit/(Loss) for the year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 3.13 (0.32)3.93 0.49 1.18 Equity Share Capital 73.50 73.50 73.50 73.50 73.50 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown 47.75 47.26 in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings per share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations) -0.53 Basic (in ₹): (0.04)0.07 0.16 2. Diluted (in ₹): 0.43 (0.04)0.53 0.07 0.16

Note: The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the fourth guarter and year ended 31st March, 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015. The full format of the Financial Results for the fourth quarter and year ended 31st March, 2021 are available on the websites of the Stock Exchange (www.msei.in) and on the company's website (www.atlantic-commercial.com).

For Atlantic Commercial Company Limited

Sd/-Narendra Kishore Gaur Chairman DIN - 00168265

हरियाणा में धर्मांतरण की जांच संबंधी याचिका खारिज

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 28 जून।

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के नूह में कथित तौर पर हिंदुओं के जबरन धर्मांतरण मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित करने का अनुरोध करने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। मख्य न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमर्ति ऋषिकेश राय के पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह से कहा-क्षमा

विकास सिंह ने पीठ को बताया था कि दो याचिकाकर्ता क्षेत्र में गए थे और उन्होंने 21 वर्षीय निकिता तोमर के परिवार सहित अन्य लोगों से मुलाकात की थी। तोमर की पिछले वर्ष अक्तूबर में वल्लभगढ़ में कालेज के अंदर घुस कर हत्या कर दी

करें. याचिका खारिज की जाती है।

गई थी। पीठ ने कहा-हमें नहीं लगता कि समाचार पत्रों की खबरों पर आधारित इस याचिका पर हमें सुनवाई करनी चाहिए। हत्या मामले का एक आरोपी तौसीफ छात्रा पर विवाह का दबाव बना रहा था। इस वर्ष मार्च में हरियाणा के फरीदाबाद की त्वरित अदालत ने तोमर की हत्या के जुर्म में दो लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी।

वकील विष्णु शंकर जैन के माध्यम से दाखिल की गई याचिका में आरोप लगाया गया था कि नह में हिंदओं के जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक अधिकारों का अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा लगातार उल्लंघन किया जा रहा है, जिनका वहां दबदबा है। उत्तर प्रदेश के वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के समृह द्वारा दाखिल याचिका में दावा किया गया था कि राज्य सरकार, जिला प्रशासन और पुलिस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने में नाकाम रहे हैं।

कब्जा सूचना

वृंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम 2002 का 54) (यहां के बाद 'अधिनियम है रूप में संदर्भित) के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित घारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपाल-में न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनांस एंड डेवलपमेन्ट लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी मौजूदा अधोहस्तक्षरी ने उक्त सूचना की प्राप्ति को तिथि से 60 दिनों कं भीतर सूचना में वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए नीचे वर्णित ऋणियों को बुलाने के लिए नीचे वर्णित तिथियों पर एक मांग सूचना जारी की थी। ऋणी राशि का भुगतान करने में असफल रहे. एतदद्वारा ऋणी और सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों वे नियम 8 व 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर नीचे वर्णित तिथिये

विषेश रूप से ऋणी / गारंटर / गिरवीकर्ता और सर्वेसाधारण को एतदहारा संपत्तियों के साथ लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्तियों वे साथ किया गया कोई लेन-देन सूचना में वर्णित राशि के लिए न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनांस एंड डेवलपमेन्ट लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। ऋणियाँ का ध्यान प्रतिभूति संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम 13 की धारा उप—धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित है।

एस. सं.	ऋणी का नाम/सह-ऋणी/ गारंटर	संपत्ति का विवरण	मांग सूचना कब्जा सूचना	बकाया राशि
1.	1.श्रीमती सरोज कपूर तृतीय तल, एल-50, लाजपत नगर-2, नई दिल्ली-110024 इसके अलावा: 94-ए/2 (94-सी पुराना सं.) और 94-ए/1 (94-बी पुराना सं.) संत नगर, ईस्ट ऑफ केलाश, नई दिल्ली-110065 2. स्वर्गीय श्री दयाल कपूर (मृतुक) अपने कानूनी वारिसों	110024 में स्थित फीहोल्ड, छत और ऊपर के साथ संपूर्ण तृतीय	05.04.2021 (जारी किया गया 06.04.2021)	लाखा, सत्तानवे
And the second s	के माध्यम से 2ए. श्रीमती सरोज कपूर पत्नी स्वर्गीय श्री दयाल कपूर तृतीय तल, एल-50, लाजपत नगर-2, नई दिल्ली-110024 इसके अलावा 94-ए/2 (94-सी पुराना सं.) और 94-ए/1 (94-बी पुराना सं.) संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 2बी. श्री कार्तिक कपूर पुत्र स्वर्गीय श्री दयाल कपूर तृतीय तल, एल-50, लाजपत नगर-2, नई दिल्ली-110024 इसके अलावा: 94-ए/2 (94-सी पुराना सं.) और 94-ए/1 (94-बी पुराना सं.) संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 2सी. श्री ध्रुव कपूर पुत्र स्वर्गीय श्री दयाल कपूर तृतीय तल, एल-50, लाजपत नगर-2, नई दिल्ली-110024 इसके अलावा: 94-ए/2 (94-सी पुराना सं.)और 94-ए/1 (94-बी पुराना सं.) संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 3. श्री कार्तिक कपूर तृतीय तल, एल-50, लाजपत नगर-2, नई दिल्ली-110024 इसके अलावा: 94-ए/2 (94-सी पुराना सं.) और 94-ए/1 (94-बी पुराना सं.) संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 4. श्री ध्रुव कपूर तृतीय तल, एल-50, लाजपत नगर-2, नई दिल्ली-110024 इसके अलावा: 94-ए/2 (94-सी पुराना सं.) और 94-ए/1 (94-बी पुराना सं.) संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110024 इसके अलावा: 94-ए/2 (94-सी पुराना सं.) और 94-ए/1 (94-बी पुराना सं.) संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 4. श्री ध्रुव कपूर तृतीय तल, एल-50, लाजपत नगर-2, नई दिल्ली-110024 इसके अलावा: 94-ए/2 (94-सी पुराना सं.) और 94-ए/1 (94-बी पुराना सं.) संत नगर, ईस्ट ऑफ केलाश, नई दिल्ली-110065	तल संपत्ति सं. एल-11/50, परिमाप लगमग 100 वर्ग गज	26.06.2021	हजार छह सी तिहलार कंवल) 31. 03.2021 तक उसपर भावी व्याज य आकरिमक व्यय व लगातों सहित ऋण खाता सं. NHS/N/ HEA/NOI/1216/ 0002 और NHS/N/HEA/ NOI/0118/0010
2.	स्वर्गीय श्री दयाल कपूर (मृतक) अपने कानूनी वारिसों के माध्यम से 1ए. श्रीमती सरोज कपूर पत्नी स्वर्गीय श्री दयाल कपूर तृतीय तल, एल-50,	गांव गढी इरिया मारिया के क्षेत्र में रिथत है. जिसे वर्तमान में संत	05.04.2021	₹. 19,34,560 / −
	लाजपत नगर-2, नई दिल्ली-110024 इसके अलीवा: 94-ए/2 (94-सी पुराना स.) और 94-ए/1 (94-बी पुराना सं.) सत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 1बी, श्री कार्तिक कपूर पुत्र स्वर्गीय श्री दयाल कपूर तृतीय तल, एल-50, लाजपत नगर-2, नई दिल्ली-110024 इसके अलावा: 94-ए/2 (94-सी पुराना सं.) और 94-ए/1 (94-बी पुराना सं.) संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 1सी, श्री धुव कपूर पुत्र स्वर्गीय श्री दयाल कपूर तृतीय तल, एल-50, लाजपत नगर-2, नई दिल्ली-110024 इसके अलावा: 94-ए/2 (94-सी पुराना सं.) और 94-ए/1 (94-बी पुराना सं.) संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 2. श्रीमती सरोज कपूर तृतीय तल, एल-50, लाजपत नगर-2, नई दिल्ली-110024 इसके अलावा: 94-ए/2 (94-सी पुराना सं.) और 94-ए/1 (94-बी पुराना सं.) संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 और श्री कार्तिक कपूर तृतीय तल, एल-50, लाजपत नगर-2, नई दिल्ली-110024 इसके अलावा: 94-ए/2 (94-सी पुराना सं.) और 94-ए/1 (94-बी पुराना सं.) क्वा तल, एल-50, लाजपत नगर-2, नई दिल्ली-110024 इसके अलावा: 94-ए/2 (94-सी पुराना सं.) और 94-ए/1 (94-बी पुराना सं.) संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065	नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110085 के नाम से जाना जाता है। में बिल्ट-अप भूतल, उत्तर पूर्वी तरफ परिमाप 60.75 वर्ग मेटिर संलग्न दो कमरो युक्त स्नानघर, एक रसोइं और लॉबी, संपत्ति सं 94-शी, (पुराना), और 94-ए/2 (नया), और संपत्ति सं. 94-बी,(पुराना), और 94-ए/1 (नया), कुल परिमाप 276 वर्ग गज यानी (230, 7636 वर्ग मीटर) खसरा सं. 189/150/1 में सं.	26.06.2021	(रुपए उन्नीस लाख, चौतीस हजार पांच सौ साठ कंवल) 31. 03.2021 तक उसपर भाषी स्थाज य आकस्मिक व्यय व लगातों सहित ऋण खाता सं. HSG/N/ HEA/NOI/0816/ 0014

प्राधिकृत अधिकारी न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपर्मेट लिमिटेड

MODIPON LIMITED Regd. Office: Hapur Road, Modinagar, Ghaziabad -201 204 (UP) CIN: L65993UP1965PLC003082 Phone: (01232) 243471; E-mail: modipon@modimangal.in Website: www.modipon.net

		For th	e Quarter end	ded on	nine months ended	Year ended	(Rs In Lakhs Year ended	
SI. No.	Particulars	31.03.2021 (Audited)	31.03.2020 (Audited)	31.12.2020 (Unaudited)	31-12-2020	31.03.2021 (Audited)	31.03.2020 (Audited)	
1	Total income from operations (net)	132.65	0.00	-	0.56	133.21	0.10	
2	Net Profit / (Loss) from ordinary activities before tax and Exceptional items	112.38	(20.14)	(14.17)	(54.19)	58.19	(315,23)	
3	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax (before Exceptional items)	112.38	(20.14)	(14.17)	(54.19)	58.19	(315.23)	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	112.38	210.57	(14.17)	(54.19)	58.19	(84.52)	
5	Total comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	112.38	210.57	(14.17)	(54.19)	58.19	(84.52)	
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs 10/- each)	1157.67	1,157.67	1,157.67	1,157.67	1,157.67	1,157.67	
7	Earnings Per Share (before Exceptional items) of Rs 10/- each Basic (Rs): Diluted (Rs):	0.97 0.97	1.82	(0.12)	(0.47)	0.50 0.50	(0.73)	
8	Earnings Per Share (after exceptional items) of Rs 10/- each Basic (Rs):	0.97	1.82	(0.12)	(0.47)	0.50	(0.73)	
	Diluted (Rs):	0.97	1.82	(0.12)	(0.47)	0.50	(0.7)	

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/YearlyFinancial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Yearly Financial Results are available on the Company's Website at www.modipon.in and also be accessed on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com For & on behalf of Board of Directors

(Manish Modi) Place: New Delhi **Managing Director** Date: 28-06-2021 DIN 00030036 MAXPLUS LOGISTICS LIMITED

FEDERAL-MOGUL GOETZE (INDIA) LIMITED

POWERTRAIN

Regd. Office: DLF Prime Towers, 10 Ground Floor, F - 79 & 80, Okhla Phase-I, New Delhi-110020, Corp off. 10th Floor, Paras Twin Towers "Tower B" Golf Course Road, Sector 54 Gurugram-122002 Website: www.federalmogulgoetzeindia.net, CIN: L74899DL1954PLC002452 E mail: investor.grievance@federalmogul.com Phone/Fax: + 91 11 - 49057597

				Standalone					Consolidated		
SI No.	Particulars	Quarter ended 31 March 2021 (Refer note-4)	Quarter ended 31 Dec. 2020 (Unaudited)	Quarter ended 31 March 2020 (Refer note-4)	Year ended 31 March 2021 (Audited)	Year ended 31 March 2020 (Audited)	Quarter ended 31 March 2021 (Refer note-4)	Quarter ended 31 Dec. 2020 (Unaudited)	Quarter ended 31 March 2020 (Refer note-4)	Year ended 31 March 2021 (Audited)	Year ended 31 March 2020 (Audited)
1.	Total Income from operations	37,091.66	35,043.23	23,027.74	108,685.54	106,639.22	37,632.30	35,678.06	23,422.46	110,716.45	108,540.75
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3,846.43	3,984.63	391.72	4,331.50	3,309.97	4,257.12	4,442.80	615.22	5,064.70	4,664.62
3.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, after Exceptional and/or Extraordinary items)	(428.57)	3,984.63	391.72	56.50	3,309.97	(17.88)	4,442.80	615.22	789.70	4,664.62
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(698.87)	3,311.99	194.97	76.62	2,983,60	(420.84)	3,662.84	317.78	493.81	3,871.75
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(455.73)	3,311.99	(717.07)	319.76	2,071.62	(174.12)	3,662.84	(597.86)	740.53	2,956.11
6.	Equity Share Capital	5,563.21	5,563.21	5.563.21	5,563.21	5,563.21	5,563.21	5,563.21	5,563.21	5,563.21	5,563.21
7.	Earnings Per Share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic (In ₹): Diluted (In ₹):	(1.26) (1.26)	5.95 5.95	0.35 0.35	0.14 0.14	5.36 5.36	(1.03) (1.03)	6.26 6.26	0.41 0.41	0.10 0.10	5.84 5.84

- The above result is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchange under Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the these Financial Results are available on the website of the company (http://www.federalmogulgoetzeindia.net The above financial results of the Company have been reviewed by the Audit Committee and thereafter have been approved by the Board of Directors at their meeting held on
- 28 June 2021 The results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) prescribed under section 133 of the companies Act, 2013 and other recognised
- accounting practices and policies to the extent applicable. Figures for the guarter ended 31 March 2021 and 31 March 2020 are the balancing figures between the audited figures for the full financial year ended 31 March 2021 and 31
- March 2020 and the published year to date figures upto the third quarter of the respective financial years.
- The Company has received an unfavourable Order from the Hon'ble Supreme Court in matter of Management of Federal Mogul Goetze India Ltd versus Additional Labour Commissioner (Administration) and Appellate Authority & ORS. vide Special leave petition number 6794-6796/2021 dated 13 May 2021 ('the Order'). The net impact of the Order on the Company could be approximately ₹4,275 lacs. The Company has considered a provision of the complete amount in its books towards any such liability based on generally accepted accounting principles. The above impact of ₹ 4.275 lacs, has been disclosed as exceptional item in these financial results. Irrespective of the heads under which they appear or their nomenclature/heading/title/narration, etc., such provisions do not make the Company liable for payment since liability is disputed as the Company has filed a review petition against the said Order before the Hon'ble Supreme Court on 15 June 2021. Based on legal advice obtained, the Company's petition has a merit and the estimate of the liability may undergo a revision based on the outcome of the review petition.
- The Indian Parliament has approved the Code on Social Security, 2020 which could have a likely impact on the contributions made by the Company towards Provident Fund and Gratuity. The Ministry of Labour and Employment has released draft rules for the Code on Social Security, 2020 on 13 November 2020 and has invited suggestions from stakeholders which are under active consideration by the Ministry. The effective date from which the Code and applicable Rules shall be applicable is yet to be notified. The Company shall assess and evaluate the likely financial impact once the subject rules are notified and become effective. For and on behalf of Board of Directors

Sd/-

DR. FRESH ASSETS LTD Regd. Off.: B-1/E-24, Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110 044 CIN- L74899DL1990PLC042302

E-mail: drfresh@drfreshassets.com

website: www.drfreshassets.com

CIN: L65999DL1985PLC022321

Read. Office: 1. Community

Centre, East of Kailash,

New Delhi-110 065

email: sanieev.chandra@gmail.com

website:www.maxpluslogisticslimited.com

Tel. No.: 011-49057869 NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with

Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation

and Disclosure Requirement) Regulations 2015, Notice is hereby given that a meeting

of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 30th

June, 2021 inter alia approve and take or

record the Audited Financial Results for the

Quarter and Year ended 31st March, 2021 The Notice is also available on the Stock

Exchanges website www.msei.ir

For Maxplus Logistics Limited

website

Sanjeev Chandra

Director and CEC

Company's

www.maxpluslogisticslimited.com.

Place: New Delhi

Date: 22.06.2021

NOTICE Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 30th June. 2021 inter alia approve and take or record the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2021. Trading window for dealing in securities of the Company is under closure from 1st April 2021 and will remain closed till the end of 48 hours after the Results are made public. The notice is also available on the Stock

Exchange website www.msei.in and company's website www.drfreshassets.com For DR. FRESH ASSETS LTD Date: 22.06.2021 Vijay Prakash Pathak

Place: Delhi Whole Time Director DIN-07081958

(Vinod Kumar Hans) Managing Director DIN- 03328309

Date: 28 June 2021

Place: Gurugram

www.readwhere.com